



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 47] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 25—दिसम्बर 1, 2006 (अग्रहायण 4, 1928)
No. 47] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 25—DECEMBER 1, 2006 (AGRAHAYANA 4, 1928)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 1

[PART III—SECTION 1]

[उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के संलग्न और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं]

[Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, the Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India]

संघ लोक सेवा आयोग

नई दिल्ली-110069, दिनांक 2 नवम्बर 2006

सं. ए-60011/8/2005-सू.अधि. अधिनियम प्रकोष्ठ (प्रशा.)--
आयोग कार्यालय में संयुक्त सचिव के स्तर पर स्थानांतरण/तैनाती तथा कार्य के पुनः आबंटन के परिणामस्वरूप तथा सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5(2) की शर्तों के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग के निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के सामने दर्शाई गई विषय वस्तु के संबंध में एतद्वारा केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी के रूप में नामोद्घिष्ट किया जाता है।

अधिकारी का नाम	पदनाम	दूरभाष सं.	विषय वस्तु
(सर्वश्री)			
वसुमित्र	संयुक्त सचिव (परीक्षा)	23381164	आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न परीक्षाओं से संबंधित सभी मामले तथा आयोग की गोपनीय शाखा से संबंधित सभी मामले

अधिकारी का नाम	पदनाम	दूरभाष सं.	विषय वस्तु
अ.कु. विशानदास	संयुक्त सचिव (भर्ती-I)	23385090	भर्ती (स. एवं नी.), आई. एफ.सी., संवीक्षा अनुभाग (भर्ती II, भर्ती III, भर्ती IV, भर्ती V) तथा प.सु. शाखा के भाग से संबंधित सभी मामले
बी. पी. सिंह	संयुक्त सचिव (भर्ती-II)	23381439	संवीक्षा अनुभाग (भर्ती-I, भर्ती-VI) वि.प्र. I, वि.प्र. II से संबंधित सभी मामले
सुश्री कल्पना राजसिंघोत	संयुक्त सचिव (भर्ती-III)	23382865	सलाहकार प्रकोष्ठ, पैनल एवं डॉट बैंक, प्रोग्राम एकक से संबंधित सभी मामले
सुश्री नीता प्रसाद	संयुक्त सचिव (अ.भा.से.)	23381552	राज्य सेवाओं के अधिकारियों को अखिल भारतीय सेवाओं में शामिल करने से संबंधित सभी मामले।

ए. के. दाश
संयुक्त सचिव
(नियु. एवं सू.अ. अधि.)

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 2 नवम्बर 2006

सं. ई-6013/1/एडीजी/04/कार्मिक-2/2968--राष्ट्रपति, श्री विक्रम सिंह भा.पु.से. (यू.पी.:74) को दिनांक 30.10.2006 के पूर्वाह्न से रु. 22400-525-24500/- के वेतनमान में केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में अपर महानिदेशक के पद पर चार वर्ष के लिए अथवा अग्रिम आदेश जो भी पहले हो के लिए नियुक्त करते हैं।

इन्द्रजीत कौर
निदेशक (पुलिस)

महानिदेशालय, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

नई दिल्ली-110 003, दिनांक 31 अक्टूबर 2006

सं. ओ-दो-3702/06-सी.आर.सी.(चिकित्सा)--राष्ट्रपति जी, डॉक्टर सुमित सैगल (इला नं. 6967) को अस्थायी रूप से आगामी आदेश जारी होने तक केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में चिकित्सा अधिकारी के पद पर दिनांक 12.09.2006 (पूर्वाह्न) से सहर्ष नियुक्त करते हैं। तदनुसार उन्हें 75 बटालियन, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में तैनात किया जाता है।

रणजीत सिंह
अपर पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक-1)

दिनांक 6 नवम्बर 2006

सं. ओ-दो-6487/2006-कार्मिक-1--सरकारी सेवा से त्याग-पत्र स्वीकार हो जाने के फलस्वरूप, श्रीमती कुनि आचार्य, सहायक कमान्डेन्ट (आई.आर.एल.ए.-6487), 122 बटालियन, के.रि.पु. बल ने दिनांक 10.10.2006 को (अपराह्न) में अपने पद का कार्यभार त्याग दिया है। तदनुसार उन्हें इस बल की नफरी से इसी तिथि से अर्थात् दिनांक 10.10.2006 (अपराह्न) से निकाला जाता है।

रणजीत सिंह
अपर पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक-1)

दिनांक 7 नवम्बर 2006

सं. ओ-दो-6479/2006-कार्मिक-1--सरकारी सेवा से स्वैच्छिक सेवा-निवृत्त होने संबंधी नोटिस दिनांक 12.08.2006 के स्वीकार हो जाने के फलस्वरूप श्री सी.एस. साबु, सहायक कमान्डेन्ट (आई.आर.एल.ए.- 6479), 139 बटालियन, के.रि.पु. बल ने दिनांक 01.11.2006 (पूर्वाह्न) को अपने पद से कार्यभार त्याग दिया। तदनुसार उनका नाम इस बल की नफरी से दिनांक 01.11.2006 (पूर्वाह्न) से निकाला जाता है।

रणजीत सिंह
अपर पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक-1)

सं. ओ-दो-3703/06-सी.आर.सी.(चिकित्सा)--राष्ट्रपति जी, डॉक्टर मुकेश कुमार को अस्थायी रूप से आगामी आदेश जारी होने तक

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में चिकित्सा अधिकारी के पद पर दिनांक 19.9.2006 (पूर्वाह्न) से सहर्ष नियुक्त करते हैं। तदनुसार उन्हें 50 बटालियन, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में तैनात किया जाता है।

रणजीत सिंह
अपर पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक-1)

महानिदेशालय
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

नई दिल्ली-110 003, दिनांक 7 नवम्बर 2006

सं. ई-16015/(2)/2/2003/कार्मिक-1/69--राष्ट्रपति, श्री ए. बानू कुमार, निरीक्षक/कार्य को नियमित पदोन्नति पर केऔसुब में सहायक कमान्डेन्ट/कार्य के पद पर 8000-275-13500/- रुपए के वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्त करते हैं। वह केऔसुब इकाई, टीएचडीसी टेहरी में पदस्थ है जहां उन्होंने दिनांक 27 अक्टूबर 2006 (पूर्वाह्न) से सहायक कमान्डेन्ट/कार्य के पद का कार्यभार संभाल लिया है।

ह./- अपठनीय
महानिदेशक, केऔसुब

सं. ई-16015(2)/2/2003/कार्मिक-1/70--राष्ट्रपति, केऔसुब के निम्नलिखित कमान्डेन्टों को 14300-400-18300/- रुपए के वेतनमान में वरिष्ठ कमान्डेन्ट के रैंक में नियमित पदोन्नति होने पर उनके नाम के सामने दर्शाई गई दिनांक से उन्हें इस पद पर नियुक्त करते हैं :-

अधिकारी का नाम	कार्यालय/इकाई जहां पर कार्यभार ग्रहण किया	वरिष्ठ कमान्डेन्ट के रूप में कार्यभार संभालने की दिनांक
सर्वश्री		
आर. पी. मिश्रा	ओआईएल दुलियाजान	14.10.2006
एस. एन. सिंह	केएसटीपीपी कोरबा	14.10.2006

ह./- अपठनीय
महानिदेशक, केऔसुब

सं. ई-16015(2)/2/2003/कार्मिक-1/71--राष्ट्रपति, केऔसुब के निम्नलिखित सहायक कमान्डेन्टों को 10,000-325-15,200/- रुपए के वेतनमान में उप कमान्डेन्ट के रैंक में नियमित पदोन्नति होने पर उनके नाम के सामने दर्शाई गई दिनांक से उन्हें इस पद पर नियुक्त करते हैं :-

अधिकारी का नाम	कार्यालय/इकाई जहां पर कार्यभार ग्रहण किया	वरिष्ठ कमान्डेन्ट के रूप में कार्यभार संभालने की दिनांक
सर्वश्री		
टी. एस. चड्ढा	ओएनजीसी नजीरा	11.09.2006
बिपिन चन्द्रा	एनएनपी मैसूर	29.09.2006
जे. सी. दहिया	आरएचपीपी पोपरी	06.10.2006

ह./- अपठनीय
महानिदेशक, केऔसुब

भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का कार्यालय
नई दिल्ली-110 002, दिनांक 8 नवम्बर 2006

सं. 110-जी.ई.-1/13-2006---भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा सेवा के निम्नलिखित अधिकारी उनके नाम के सामने दर्शाई गई तिथि से सेवानिवृत्त हो चुके हैं।

सर्वश्री

1. एम. भेंगरा अधिवार्षिकी दिनांक 31.10.2006 (अपराह्न)
2. वी. सी. पिल्लई अधिवार्षिकी दिनांक 31.10.2006 (अपराह्न)

दीपक नारायण

सहा. नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कार्मिक)

कार्यालय महालेखाकार (ले. व ह.) जम्मू व कश्मीर

श्रीनगर, दिनांक 5 अक्टूबर 2006

सं. प्रशासन-1/ले. व ह./एस-1/2006-07/1371--महालेखाकार महोदया ने निम्नलिखित सहायक लेखा अधिकारियों को स्थानापन्न रूप में रुपए 7500-250-12000 के वेतनमान में 05.10.2006 से प्रभावी अथवा जिस तिथि से वे मुख्य कार्यालय में या शाखा कार्यालय में लेखा अधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण करते हैं जो भी बाद में घटे, के रूप में पदोन्नत करने की अनुकम्पा की है।

नाम	जन्मतिथि	वर्तमान तैनाती का स्थान	टिप्पणी
श्री मोहम्मद फारुक	14.02.1957	मुख्य कार्यालय श्रीनगर	--
श्रीमती रमन जलाली	10.08.1954	शाखा कार्यालय जम्मू	--

पदोन्नत अधिकारी अपनी पदोन्नति की तिथि से लेकर एक मास के भीतर नियमानुसार अपने वेतन उच्च संवर्ग में नियत करवाने के लिए विकल्प का प्रयोग कर सकते हैं।

उपर्युक्त अधिकारी उच्च पद का कार्यभार क्रमानुसार मुख्य कार्यालय, श्रीनगर और शाखा कार्यालय जम्मू में संभालेंगे।

ह./- अपठनीय

उप-महालेखाकार (ले. व ह.)

सं. प्रशासन-1/ले. व ह./एस-1/06-07/1381--महालेखाकार द्वारा श्री चमन लाल कौल, सहायक लेखा अधिकारी (जन्म तिथि 25.01.1955), को "ठीक निचला नियम" के अन्तर्गत स्थानापन्न रूप में 05.10.2006 से रुपए 7500-250-12000 के वेतनमान में लेखा अधिकारी के संवर्ग में पदोन्नत किया जाता है।

इस प्रकार पदोन्नत अधिकारी उस के उच्च संवर्ग में कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से एक माह की अवधि के अन्दर अपने वेतन नियतन का विकल्प देंगे जैसा कि नियमों के अन्तर्गत अपेक्षित है।

ह./- अपठनीय

उप महालेखाकार (ले. व ह.)

सं. प्रशासन-1/ले. व ह./एस-1/06-07/1390--महालेखाकार द्वारा श्री अवतार कृष्ण पण्डिता, सहायक लेखा अधिकारी (जन्मतिथि 19.01.1955) को 'ठीक निचला नियम' के अन्तर्गत 05.10.2006 से स्थानापन्न रूप में रुपए 7500-250-12000 के वेतनमान में लेखा अधिकारी के संवर्ग में पदोन्नत किया जाता है।

इस प्रकार पदोन्नत अधिकारी उस के उच्च संवर्ग में कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से एक माह की अवधि के भीतर अपने वेतन नियतन का विकल्प देंगे जैसा कि नियमों के अन्तर्गत अपेक्षित है।

ह./- अपठनीय

उप-महालेखाकार (ले. व ह.)

सं. प्रशासन-1/ले. व ह./एस-1/06-07/1399--महालेखाकार द्वारा निम्नलिखित अनुभाग अधिकारी 05.10.2006 से अथवा उन के उच्च संवर्ग में कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से, जो भी बाद में हो, स्थानापन्न रूप में रुपए 7450-225-11500 (समूह 'ख' राजपत्रित) के वेतनमान में सहायक लेखा अधिकारी के संवर्ग में पदोन्नत किए जाते हैं।

नाम	जन्मतिथि	वर्तमान कार्य नियुक्ति	टिप्पणी
श्री रविन्द्र कुमार रैना	29.05.1961	मुख्यालय श्रीनगर	--
श्री राजनाथ कौल	10.04.1964	शाखा कार्यालय जम्मू	--

इस प्रकार पदोन्नत अधिकारी उन के उच्च संवर्ग में कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से एक माह की अवधि के अन्दर अपने वेतन नियतन का विकल्प देंगे जैसा कि नियमों के अन्तर्गत अपेक्षित है।

ह./- अपठनीय

उप-महालेखाकार (ले. व ह.)

कार्यालय महालेखाकार (लेखा व हक.) पश्चिम बंगाल

कोलकाता-700 001, दिनांक 1 नवम्बर 2006

सं. डब्ल्यू.एम.1/स्थापना/195--महालेखाकार (लेखा व हक.) पश्चिम बंगाल के आदेश के तहत निम्नलिखित प्रभागीय लेखा अधिकारी ग्रेड-I को इस आदेश के द्वारा वरिष्ठ प्रभागीय लेखा अधिकारी के रूप में वेतनमान रुपए 7500-250-12000/- में अस्थायी तथा स्थानापन्न क्षमता में वरिष्ठ विभागीय लेखा अधिकारी के रूप में प्रभार ग्रहण करने के दिनांक के प्रभाव से वर्तमान डिविजन/उनके नाम के समक्ष लिखित डिविजन में अगले आदेश तक के लिए प्रोन्नति दी गई। वे प्रोन्नति के दिनांक से दो वर्षों की अवधि के लिए परिवीक्षा में रहेंगे।

यह प्रोन्नति लोकहित में दिया गया।

श्री राधेश्याम कर्मकार

उपरोक्त अधिकारी प्रोन्नत होने पर अपने वेतन निर्धारण हेतु वरिष्ठ प्रभागीय लेखा अधिकारी के रूप में प्रभार ग्रहण करने के दिनांक से

एक माह के अन्दर एफ.आर. 22(1)(क)(i) के तहत अपना विकल्प प्रस्तुत करें।

ह./- अपठनीय
उपमहालेखाकार (लेखा)

दिनांक 2 नवम्बर 2006

सं. डब्ल्यू.एम.1/स्थापना/196--महालेखाकार (लेखा व हक.) पश्चिम बंगाल के आदेश के तहत निम्नलिखित विभागीय लेखा अधिकारी ग्रेड-II को इस आदेश के द्वारा विभागीय लेखा अधिकारी ग्रेड-I के रूप में वेतनमान रुपए 7450-225-11500/- में अस्थायी तथा स्थापनापन क्षमता में विभागीय लेखा अधिकारी ग्रेड-I के रूप में प्रभार ग्रहण करने के दिनांक के प्रभाव से वर्तमान डिविजन/उनके नाम के समक्ष लिखित डिविजन में अगले आदेश तक के लिए प्रोन्नति दी गई। वे प्रोन्नति के दिनांक से दो वर्षों की अवधि के लिए परीक्षा में रहेंगे।

यह प्रोन्नति लोकहित में दिया गया।

श्री शेखर कुमार मैत्रा

उपरोक्त अधिकारी प्रोन्नत होने पर अपने वेतन निर्धारण हेतु विभागीय लेखा अधिकारी ग्रेड-I के रूप में प्रभार ग्रहण करने के दिनांक से एक माह के अंदर एफ.आर.22(1)(क)(i) के तहत अपना विकल्प प्रस्तुत करें।

ह./- अपठनीय
उपमहालेखाकार (लेखा)

लघु उद्योग मंत्रालय

विकास आयुक्त (लघु उद्योग) का कार्यालय

नई दिल्ली, दिनांक-10 नवम्बर 2006

सं. ए-19018/728/84-प्रशा. (राज.)--सेवा निवृत्ति की आयु प्राप्त कर लेने पर श्री एस.के. गुप्ता, उप निदेशक (रसायन) लघु उद्योग विकास संगठन के अंतर्गत शाखा लघु उद्योग सेवा संस्थान, ग्वालियर से दिनांक 30 सितम्बर 2006 (अपराह्न) को सेवा निवृत्त हो गए हैं।

डी. के. गौतम
उप निदेशक (प्रशासन)

खान मंत्रालय

भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण

कोलकाता-16, दिनांक 8 नवम्बर 2006

सं. 1864ए/ए-19012(3-जी.एस.आर.)/83/19बी--केंद्रीय सिविल सेवाएं (सी.सी.एस.) पेंशन नियमावली, 1972 के नियम 48ए(1) के अंतर्गत डॉ. जी. एस. रेड्डी, सहायक रसायनज्ञ श्रेणी-I, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, समुद्री स्कंध, पूर्वी तट-II, विशाखापट्टनम ने सरकारी सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर 01.02.2005 (पूर्वाह्न) से प्रभावित सहायक रसायनज्ञ श्रेणी-I का कार्यभार छोड़ दिया।

एस. के. सिन्हा
क्षेत्रीय प्रशासन अधिकारी
कृते उपमहानिदेशक (का.) एवं विभागाध्यक्ष

संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(दूरसंचार विभाग)

बेतार अनुश्रवण संघटन

नई दिल्ली, दिनांक 3 नवम्बर 2006

सं. ए-32012/2/03-प्रशा. (पार्ट)/1029--भारत सरकार के संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में बेतार सलाहकार एतद्वारा संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, दूरसंचार विभाग के बेतार अनुश्रवण संघटन के लेखाकार, श्री राम अयोध्या प्रसाद को संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, दूरसंचार विभाग के बेतार अनुश्रवण संघटन में दिनांक 17.10.2006 से 17.1.2007 तक तीन माह की अवधि या जब तक कथित पद पर कोई उम्मीदवार संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्त नहीं हो जाता, इसमें से जो भी पहले हो तब तक के लिए 6500-200-10500/- रु. के वेतनमान में प्रशासनिक अधिकारी (श्रेणी "ख", राजपत्रित) के पद पर तदर्थ आधार पर कार्य करते रहने की अनुमति प्रदान करते हैं।

अनिल कुमार
उप निदेशक
कृते बेतार सलाहकार

सं. ए-32012/2/03-प्रशा. (पार्ट)/1030--भारत सरकार के संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में बेतार सलाहकार एतद्वारा संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, दूरसंचार विभाग के बेतार अनुश्रवण संघटन के लेखाकार, श्री राम अयोध्या प्रसाद को संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, दूरसंचार विभाग के बेतार अनुश्रवण संघटन में दिनांक 17.10.2006 से 17.1.2007 तक तीन माह की अवधि या जब तक कथित पद पर कोई उम्मीदवार संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्त नहीं हो जाता, इसमें से जो भी पहले हो तब तक के लिए 6500-200-10500/- रु. के वेतनमान में प्रशासनिक अधिकारी (श्रेणी "ख", राजपत्रित) के पद पर तदर्थ आधार पर कार्य करते रहने की अनुमति प्रदान करते हैं।

अनिल कुमार
उप निदेशक
कृते बेतार सलाहकार

सं. ए-32012/2/03-प्रशा. (पार्ट)/1031--भारत सरकार के संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में बेतार सलाहकार एतद्वारा संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, दूरसंचार विभाग के बेतार अनुश्रवण संघटन के लेखाकार, श्री राम अयोध्या प्रसाद को संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, दूरसंचार विभाग के बेतार अनुश्रवण संघटन में दिनांक 17.10.2006 से 17.1.2007 तक तीन माह की अवधि या जब तक कथित पद पर कोई उम्मीदवार संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्त नहीं हो जाता, इसमें से जो भी पहले हो तब तक के लिए 6500-200-10500/- रु. के वेतनमान में प्रशासनिक

अधिकारी (श्रेणी "ख", राजपत्रित) के पद पर तदर्थ आधार पर कार्य करते रहने की अनुमति प्रदान करते हैं।

अनिल कुमार
उप निदेशक
कृते बेतार सलाहकार

कृषि मंत्रालय

(कृषि एवं सहकारिता विभाग)

विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय

एन.एच.-4, फरीदाबाद, दिनांक 9 नवम्बर 2006

सं. ए-19024/3/2006-प्र.-1--5,500-175-9,000 रुपए के वेतनमान में वरिष्ठ रसायनज्ञ (ग्रुप बी राजपत्रित) के पद पर पदोन्नति होने के परिणामस्वरूप, श्री एस.एन. मिश्रा को 16 अक्टूबर, 2006 (पूर्वाह्न) से विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय में अस्थायी आधार पर उक्त पद पर नियुक्त किया जाता है।

ए. के. चोपड़ा
अवर सचिव

भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र

मुंबई-400 085, दिनांक 7 नवम्बर 2006

सं. पीडी/7(5)/2006/भर्ती-IV/एसओ/ई/10475--राष्ट्रपति, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निम्नलिखित अधिकारियों को वैज्ञानिक अधिकारियों/इंजीनियरों ग्रेड 'ई' के रूप में, दिनांक 01 फरवरी, 2006 के पूर्वाह्न से, श्री के.डी. सिंह (क्रम सं. 17) एवं श्री एच.ए. गांगरडीवाला (क्रम सं. 42) जिनकी नियुक्ति तिथियां क्रमशः 6 फरवरी 2006 एवं 10 फरवरी 2006 के पूर्वाह्न से हैं, को छोड़कर, आगामी आदेशों तक, स्थानापन्न रूप में इसी अनुसंधान केंद्र में कार्य करने हेतु नियुक्त करते हैं :-

क्रम सं.	अधिकारी का नाम	वर्तमान पद
1	2	3
1.	श्री ए.के. गोयल	एसओ/डी
2.	श्री वी.के. गौतम	एसओ/डी
3.	श्री एच.सी. गोयल	एसओ/डी
4.	श्री सुनील आर. कौल	एसओ/डी
5.	डा. डी.एन. यादव	एसओ/डी
6.	श्री एस.बी. शंभरकर	एसओ/डी
7.	श्री राजेन्द्र प्रसाद	एसओ/डी
8.	श्री पी. राजेन्द्रन	एसओ/डी
9.	श्री पी.टी. हरिहरन	एसओ/डी
10.	डा. डी. विद्यासागर	एसओ/डी
11.	श्रीमती सती आर. नायर	एसओ/डी

1	2	3
12.	श्री पी.वाई. बनसोडे	एसओ/डी
13.	श्री एम.सी. गोयल	एसओ/डी
14.	डा. आर.डी. भानुशाली	एसओ/डी
15.	डा. (श्रीमती) एस.ए. मराठे	एसओ/डी
16.	डा. (श्रीमती) उषा नारायणन	एसओ/डी
17.	श्री के.डी. सिंह	एसओ/डी
18.	श्री एस.एन. तिवारी	एसओ/डी
19.	श्री पेरूमल डी. पिल्लै	एसओ/डी
20.	श्री के. गोविंदन	एसओ/डी
21.	डा. (कुमारी) वी.पी. सापले	एसओ/डी
22.	डा. (श्रीमती) देबजानी पाल	एसओ/डी
23.	डा. (श्रीमती) एन.एच. हळदवणेकर	एसओ/डी
24.	डा. (श्रीमती) एस. राजेश्वरी	एसओ/डी
25.	डा. डी. जयप्रकाश	एसओ/डी
26.	श्री बी.जी. कोरी	एसओ/डी
27.	श्री आनंद बडिगन्नवर	एसओ/डी
28.	श्री वी.एम. पाखरे	एसओ/डी
29.	श्री एस.पी. धाक्रस	एसओ/डी
30.	श्री ओमवीर सिंह	एसओ/डी
31.	श्री बी.पी. बठेजा	एसओ/डी
32.	श्रीमती एस.यू. अवसरे	एसओ/डी
33.	डा. एन.आर. कृष्णमूर्ति	एसओ/डी
34.	श्री आर. मुरलीधर	एसओ/डी
35.	डा. एस.एस. सनये	एसओ/डी
36.	श्री राकेश रास बिहारी	एसओ/डी
37.	श्री वी.एस. विश्वनाथ अय्यर	एसए/एफ
38.	श्रीमती डी. सरला बाई अम्मा	एसए/एफ
39.	श्री जे. उदयकुमार	एसओ/डी
40.	श्री ए.पी. साठे	एसओ/डी
41.	श्री ए.के. डे	एसओ/डी
42.	श्री एच.ए. गांगरडीवाला	एसओ/डी
43.	श्री एन. ससीधरन	एसए/डी
44.	श्री संजय कुमार	एसओ/डी
45.	श्री रमेश गुप्ता	एसओ/डी
46.	श्री संत शरण	एसओ/डी

डा. जी. डी. पुंगळे
नियंत्रक

मुंबई-400 085, दिनांक 7 नवम्बर 2006

सं. पीडी/7(6)/2006/भर्ती-IV/एसओ/डी/10494--राष्ट्रपति, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निम्नलिखित अधिकारियों को वैज्ञानिक अधिकारियों/इंजीनियरों ग्रेड 'डी' के रूप में, दिनांक 01 फरवरी, 2006 के पूर्वाह्न से, आगामी आदेशों तक, स्थानापन्न रूप में इसी अनुसंधान केंद्र में कार्य करने हेतु नियुक्त करते हैं :--

क्रम सं.	अधिकारी का नाम	वर्तमान पद
1	2	3
1.	श्री ए.के. चंदर	एसओ/सी
2.	श्री एल.एस. पटेल	एसओ/सी
3.	श्री वाई.जी. नेहेते	एसओ/सी
4.	श्री जे.आर. काले	एसए/ई
5.	श्री डी. जोयसन डिरोझ	एसओ/सी
6.	श्री एस.बी. महिन्द्रकर	एसओ/सी
7.	श्री बी.पी. सिंह	एसओ/सी
8.	श्री वाई.आर. बामणकर	एसओ/सी
9.	श्री एच.डी. खाडे	एसओ/सी
10.	श्रीमती वी.एस. ढोकणे	एसओ/सी
11.	श्री पी.बी. पाध्ये	एसओ/सी
12.	श्री पी.जे. जोषी	एसओ/सी
13.	श्री राजेश सांखला	एसओ/सी
14.	श्री सुभाष सिंह	एसओ/सी
15.	श्री जी. रामसुब्रमणियन	एसए/ई
16.	श्री वी. रामकृष्णा	एसओ/सी
17.	श्री जोर्ज थोमस	एसओ/सी
18.	श्री यू. पट्टम्मल	एसओ/सी
19.	डा. सी.के. साळुंखे	एसओ/सी
20.	श्री पी.के. मुहम्मद कोया	एसओ/सी
21.	डा. (श्रीमती) यू.पी. पेशोटन	एसओ/सी
22.	डा. हेंरी राल्ते	एसओ/सी
23.	डा. विनीत कोहली	एसओ/सी
24.	श्री आर.एम. चव्हाण	एसओ/सी
25.	श्री टी.जे. चंद्रन	एसओ/सी
26.	श्री एन.बी. काशिद	एसओ/सी
27.	श्री बी.के. पाण्डेय	एसओ/सी
28.	श्री राम वीर सिंह	एसओ/सी

1	2	3
29.	श्री पी. अनंतन	एसओ/सी
30.	श्री प्रशान्त दुबे	एसओ/सी
31.	श्री सी.एन.एस. रेणुका प्रसाद	एसओ/सी
32.	श्री के. मुरलीमोहन	एसओ/सी
33.	डा. (श्रीमती) के. बिजु	एसओ/सी
34.	श्रीमती महुया बासु बेंनर्जी	एसओ/सी
35.	श्री के.सी. जगदीशन	एसओ/सी
36.	श्री आर.के.बी. यादव	एसओ/सी
37.	श्रीमती एस.पी. विनता	एसओ/सी
38.	श्री ए.के. मिश्रा	एसओ/सी
39.	श्रीमती पी.बी. पाटील	एसओ/सी
40.	श्री एस.जे. बालानी	एसओ/सी
41.	श्री विनोद प्रसाद	एसओ/सी
42.	श्री एस.पी. शर्मा	एसओ/सी

पी. वेणुगोपालन
नियंत्रक

मुंबई-400 085, दिनांक 7 नवम्बर 2006

सं. पीडी/4(4)/2001-आर-III/2006/10504--नियंत्रक, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, श्री थंगास्वामी नागेंद्रन, लेखा अधिकारी, आर. एम.पी., मैसूर को दिनांक 01.07.2006 (पूर्वाह्न) से, आगामी आदेशों तक रु. 8,000-275-13,500 के वेतनमान में आर.एम.पी., मैसूर में वरिष्ठ लेखा अधिकारी के पद पर नियमित रूप से नियुक्त करते हैं।

डी. दशरथन
उप स्थापना अधिकारी

दिनांक 8 नवम्बर 2006

सं. पीडी/4(1)/2003-आर-III/2006/10534--नियंत्रक, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, श्रीमती ए.बी. नायर, आशुलिपिक श्रेणी-I को दिनांक 23.08.2006 (पूर्वाह्न) से आगामी आदेशों तक रु. 6,500-200-10,500 के वेतनमान में इसी अनुसंधान केंद्र में निजी सचिव (गैर-सचिवालयीय) के पद पर नियुक्त करते हैं।

डी. दशरथन
उप स्थापना अधिकारी

परमाणु ऊर्जा विभाग

मुंबई-400 001, दिनांक 6 नवम्बर 2006

सं. 16/2(1)/2004-एसयूएस/8546--राष्ट्रपति, डॉ. के. प्रविण बाबू को इस विभाग के सामान्य सेवा संगठन, कलपाक्कम में

रु. 8,000-275-13,500 के वेतनमान में मूल वेतन रु. 8000/- + मूल वेतन के 25% की दर से एनपीए के प्रारंभिक वेतन पर दिनांक 25.09.2006 (पूर्वाह्न) से भावी आदेश होने तक अस्थायी आधार पर वैज्ञानिक अधिकारी/सी (चिकित्सा) के पद पर नियुक्त करते हैं।

डी. सुरेन्द्रन
अवर सचिव

मुंबई-400 001, दिनांक 8 नवम्बर 2006

सं. 26/2(3)/2006-सीसीएस/34--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने पर, इस विभाग के भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, मुंबई के श्री चंद्रशेखर गजानन मिरलेकर, मुख्य सुरक्षा अधिकारी (वेतनमान रु. 12,000-16,500) दिनांक 31.08.2006 (अपराह्न) से सरकारी सेवा से निवृत्त हो गए हैं।

शोभा देवी एन.
अवर सचिव

सं. 20/3(4)/2005-सीसीएस/35--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने पर, इस विभाग के भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, मुंबई के श्री मॅथ्यू कोचुमन, उप स्थापना अधिकारी (वेतनमान रु. 10,000-15,200) दिनांक 30.09.2006 (अपराह्न) से सरकारी सेवा से निवृत्त हो गए हैं।

शोभा देवी एन.
अवर सचिव

मुंबई-400 001, दिनांक 8 नवम्बर 2006

सं. 6(2442)/2006-प्रशा/8613--राष्ट्रपति, श्री ओ.टी.जी. नायर, प्रशासनिक अधिकारी-II (वेतनमान रु. 7,500-250-12,000), विरल पदार्थ परियोजना, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, मैसूर को दिनांक 27 अक्टूबर 2006 को पूर्वाह्न से रु. 10,000-325-15,200 के वेतनमान में परमाणु ऊर्जा विभाग सचिवालय, मुंबई में विशेष कार्य अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं।

पी. पी. माधवन कुट्टी
अवर सचिव

परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद

मुंबई-400 094, दिनांक 8 नवम्बर 2006

सं. पऊनिप/10/1/प्रशा/1062--अध्यक्ष, परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद, श्रीमती सुमाम्बिका पनिकर, सहायक, को दिनांक 18.09.2006 से 20.10.2006 तक श्री वी पी कुरियाकोस प्रशासन अधिकारी-II को छुट्टी मंजूर किए जाने के कारण, इसी परिषद में रुपए 6,500-200-10,500 के वेतनमान में तदर्थ आधार पर सहायक कार्मिक अधिकारी के पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य करने हेतु नियुक्त करते हैं।

एन. एस. नायर
प्रशासन अधिकारी-III

मुख्य वास्तुक (न.दि.अं.)

(केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 31 अक्टूबर 2006

सं. 27/153/1988-मुख्य वास्तुक (न.दि.अं.) 260-64--श्री सुरिन्दर कुमार, सहायक वास्तुक, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, नई दिल्ली को अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर दिनांक 31.10.2006 अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है।

विजय पी. राव
मु. वा. (न.दि.अं.) के सम्पर्क अधिकारी

आयकर अपीलीय अधिकरण

मुंबई-400 020, दिनांक 01 नवम्बर 2006

सं. एफ.48-एडी(एटी)/2006--श्री मनीष भोई, हिन्दी अनुवादक, आयकर अपीलीय अधिकरण, मुंबई पीठें, मुंबई को, तदर्थ आधार पर, पूर्णतः अस्थायी क्षमता में, दिनांक 17 अक्टूबर, 2006 पूर्वाह्न से छः माह की अवधि के लिए अथवा पद के नियमित आधार पर भरे जाने तक, जो भी पहले हो, रु. 6,500-200-10,500/- के वेतनमान में, आयकर अपीलीय अधिकरण, मुंबई पीठें, मुंबई में स्थानापन्न रूप में, हिन्दी अधिकारी के पद पर नियुक्त किया जाता है।

उपर्युक्त नियुक्ति तदर्थ आधार पर है और ये उन्हें उस श्रेणी में नियमित नियुक्ति के लिए कोई दावा प्रदान नहीं करेगी तथा उस श्रेणी में, तदर्थ आधार पर, उनके द्वारा प्रदत्त सेवाएं वरिष्ठता के अभिप्राय से अथवा उच्चतर श्रेणी में पदोन्नति की पात्रता के लिए नहीं गिनी जाएंगी।

विमल गांधी
अध्यक्ष

दिनांक 2 नवम्बर 2006

सं. एफ.48-एडी(एटी)/2006--निम्नलिखित कर्मचारियों को, तदर्थ आधार पर, पूर्णतः अस्थायी क्षमता में, क्रमशः कॉलम नं. 3 व 4 में उनके नामों के समक्ष दर्शाए गए स्थानों एवं तिथियों से तीन माह की अवधि के लिए अथवा पदों के नियमित आधार पर भरे जाने तक, जो भी पहले हो, वेतनमान रु. 8,000-275-13,500/- में आयकर अपीलीय अधिकरण में स्थानापन्न रूप में सहायक पंजीकार के पदों पर, नियुक्त किया जाता है :--

क्रमांक	कर्मचारी का नाम/पदनाम तथा न्यायपीठें जहां वे वर्तमान में कार्यरत हैं	प्रभावी तिथि	तैनाती की न्यायपीठें
	श्री/सर्वश्री		
1.	जे.आर. सावंत, कार्यालय अधीक्षक आय.अपी.अधि., मुंबई	13.11.2006 (पूर्वाह्न)	मुंबई
2.	इ.डि. तिरोडकर, कार्यालय अधीक्षक आय.अपी.अधि., मुंबई	13.11.2006 (पूर्वाह्न)	मुंबई
3.	एस. लाकरा, कार्यालय अधीक्षक आय.अपी.अधि., दिल्ली	17.11.2006 (पूर्वाह्न)	पटना

उपर्युक्त नियुक्तियां तदर्थ आधार पर हैं और यह उन्हें इस श्रेणी में नियमित नियुक्ति के लिए कोई दावा प्रदान नहीं करेगी और उनके द्वारा तदर्थ आधार पर प्रदत्त सेवाएं वरिष्ठता के अभिप्राय से अथवा उच्चतर श्रेणी में पदोन्नति हेतु नहीं गिनी जाएंगी।

विमल गांधी
अध्यक्ष

कम्पनी कार्य मंत्रालय

(कम्पनी कार्य विभाग)

कार्यालय कम्पनी रजिस्ट्रार

कम्पनी अधिनियम 1956 एवं

मैसर्स जेन आफिस आटोमेशन प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

कानपुर, दिनांक 7 नवम्बर 2006

सं. एल.सी./560(3)/21163/2271--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अन्तर्गत सूचना दी जाती है कि आज की तिथि से तीन माह की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स जेन आफिस आटोमेशन प्राइवेट लिमिटेड का नाम यदि कोई प्रतिकूल कारण नहीं है तो कम्पनी के रजिस्ट्रार से काट दिया जाएगा तथा कथित कम्पनी विघटित हो जाएगी।

के. एल. कम्बोज
कम्पनी रजिस्ट्रार
उ. प्र. एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में

कानपुर, दिनांक 9 नवम्बर 2006

सं. एल.सी./560(5)/2367--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों का नाम रजिस्ट्रार से काट दिया गया है और उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं :--

क्रम कम्पनी कम्पनी का नाम
सं. संख्या

1	2	3
1.	13890	मैसर्स इस इन पैक प्राइवेट लिमिटेड
2.	21880	मैसर्स चाहत क्रेडिट एण्ड कार्पस प्राइवेट लिमिटेड
3.	11214	मैसर्स यूवीलाइन्स सेल्स प्राइवेट लिमिटेड
4.	17447	मैसर्स मकसन्स फाइबर्स एण्ड ब्रिस्टल्स प्राइवेट लिमिटेड
5.	23182	मैसर्स गनपति ज्वैलरी एक्जिम प्राइवेट लिमिटेड
6.	17182	मैसर्स नीति एडवर्टाइजिंग प्राइवेट लिमिटेड
7.	9078	मैसर्स जे.पी. ड्रग हाऊस प्राइवेट लिमिटेड

1	2	3
8.	6772	मैसर्स डी.जी. ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड
9.	19812	मैसर्स ग्रीन बैली एग्रोटेक लिमिटेड
10.	21833	मैसर्स महमूदाबाद कोल्ड स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड
11.	11960	मैसर्स अनबीर पेपर एण्ड पैकिंग प्राइवेट लिमिटेड
12.	20249	मैसर्स श्री सुरेन्द्र होम फिन एण्ड लीजिंग प्राइवेट लिमिटेड
13.	24637	मैसर्स महाराजा कुंवर फैशनस प्राइवेट लिमिटेड
14.	23263	मैसर्स कुक्कू ब्रास एक्सक्लूसिव प्राइवेट लिमिटेड
15.	26991	मैसर्स ओरेकल फाइनेन्शियल कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड
16.	8121	मैसर्स ए.के. एरोमेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड
17.	8015	मैसर्स मोरादाबाद विकास कोलोनाईजर्स लिमिटेड
18.	9196	मैसर्स एस.ए. फूड्स प्राइवेट लिमिटेड
19.	11090	मैसर्स गनपति सेल्स कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड
20.	27427	मैसर्स हरकूलियन यूटीलिटीज प्राइवेट लिमिटेड
21.	10596	मैसर्स डी.सी. ड्रग एण्ड केमिकल्स लिमिटेड
22.	3981	मैसर्स जवाहर इन्डस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
23.	4336	मैसर्स श्याम सुन्दर संजय कुमार सुगर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड
24.	21277	मैसर्स वसुन्धरा कैपफिन लिमिटेड
25.	25257	मैसर्स नाइस इन्फोसिस्टम्स लिमिटेड
26.	25436	मैसर्स अल्ट्रा साउण्ड एण्ड क्राडियो-स्कैन रिसर्च इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड
27.	3652	मैसर्स श्याम मोहन ब्रास प्राइवेट लिमिटेड
28.	2890	मैसर्स शिवालिक बिबेस एसोसिएशन लिमिटेड
29.	26852	मैसर्स बरन कन्सट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड
30.	13032	मैसर्स कस्तूरी कन्सट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड

के. एल. कम्बोज
कम्पनी रजिस्ट्रार
उ. प्र. एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में

कानपुर, दिनांक 10 नवम्बर 2006

सं. एल.सी./560(5)/2370--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों का नाम रजिस्ट्रार से काट दिया गया है और उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं :--

क्रम सं.	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
1.	16901	मैसर्स मोरल पेन्स प्राईवेट लिमिटेड
2.	17030	मैसर्स मिक्सेल बायोटेक्नोलॉजीस लिमिटेड
3.	23910	मैसर्स कनकन फूड प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
4.	21105	मैसर्स बिग बर्ड्स इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
5.	24101	मैसर्स ओशो रिमीड्स प्राईवेट लिमिटेड
6.	237111	मैसर्स पेडेश्वरी कन्सल्टेशन्स प्राईवेट लिमिटेड
7.	19416	मैसर्स कुंवर हास्पीटल्स एण्ड हार्ट सेन्टर प्राईवेट लिमिटेड
8.	23710	मैसर्स कुंवर मैनेजमेंट कन्सलटेन्स प्राईवेट लिमिटेड
9.	22299	मैसर्स क्रीसेन्स ओवरसीज प्राईवेट लिमिटेड
10.	16912	मैसर्स के.एम. आफसेट प्राईवेट लिमिटेड
11.	17352	मैसर्स हेप्टकेयर इन्वेस्टमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
12.	24018	मैसर्स वैभव बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड
13.	27718	मैसर्स मेकशोर सिक्वोरिटीस प्राईवेट लिमिटेड
14.	5659	मैसर्स नेपट्यून केमीकल्स (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
15.	15842	मैसर्स अहमद बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड
16.	14647	मैसर्स हज मीनाउतल्ला ट्रेड कं. प्राईवेट लिमिटेड
17.	5683	मैसर्स इकोनामी फार्म प्राईवेट लिमिटेड
18.	13233	मैसर्स के.पी.एस. मोटर्स फाइनेन्स प्राईवेट लिमिटेड
19.	21958	मैसर्स गांधी सोफ्ट ड्रिक्स एण्ड बाटलर्स प्राईवेट लिमिटेड
20.	2620	मैसर्स कुदरत कन्सल्टेशन्स एण्ड बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड
21.	10868	मैसर्स एस.एन. अग्रवाल सीमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड
22.	6441	मैसर्स एस.एन. अग्रवाल प्राईवेट लिमिटेड
23.	11147	मैसर्स तायल ट्रान्सपुर प्राईवेट लिमिटेड
24.	10327	मैसर्स कृष्णा प्रेस्टेड पाइप कं. लिमिटेड

को. एल. कम्बोज
रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज
यू. पी. एण्ड उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में

जम्मू-180 012, दिनांक 31 अक्टूबर 2006

सं. 560(3)/एसईएस/2005/1107--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर निम्नलिखित

2—346 GI/2006

कम्पनियों के नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किए गए तो रजिस्ट्रार से काट दिए जाएंगे और यह सभी कम्पनियां विधित कर दी जाएंगी :-

क्रम सं.	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
1.	1648	मैसर्स जे एण्ड के प्लान्टेशन लिमिटेड
2.	1754	मैसर्स जै शिवा एग्रो फारेस्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
3.	493	मैसर्स चार चिनार इन्वेस्टमेंट्स एण्ड ट्रेडिंग प्राईवेट लिमिटेड

ओ. पी. शर्मा
कम्पनी पंजीकार
जम्मू और कश्मीर

कम्पनी अधिनियम 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में

चेन्नई, दिनांक 5 अक्टूबर 2006

सं. 19801 से 48252 तक/560(5)/2006--कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण के द्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों का नाम रजिस्ट्रार से काट दिया गया है और उक्त कम्पनियां विधित की गई हैं :-

क्रम सं.	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
1.	19801	मैसर्स दि प्रेसिडेन्सी टाकीस प्राईवेट लिमिटेड
2.	19831	मैसर्स सैकोम सन्मार लिमिटेड
3.	22883	मैसर्स श्री वारी बेनीफिट फण्ड लिमिटेड
4.	39953	मैसर्स विजयीभवा इन्वेस्टमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
5.	40079	मैसर्स विमलायन सेक्यूरिटीस प्राईवेट लिमिटेड
6.	48252	मैसर्स एच एल एण्ड इंजीनियरिंग एण्ड कंस्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड

एस. मीनाक्षी
सहायक कंपनी पंजीयक
तमिलनाडु

कम्पनी अधिनियम 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में

कटक-753 001, दिनांक 7 नवम्बर 2006

सं. आर.ओ.सी./560(3)/3020--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के अवसान पर निम्नलिखित कम्पनियों का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्ट्रार से काट दिया जाएगा और यह सभी कम्पनियां विधित कर दी जाएंगी :-

क्रम सं.	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
1.	15-02036	मैसर्स चंद्रमा बिल्डर्स डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड
2.	15-04347	मैसर्स गामा इस्टेट प्राईवेट लिमिटेड
3.	15-05641	मैसर्स ट्वीन सिटी इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड
4.	15-05735	मैसर्स श्री दुर्गा क्लोथ स्टोर्स प्राईवेट लिमिटेड
5.	15-06020	मैसर्स निओ एग्रो इन्डस्ट्रीज (इंडिया) लिमिटेड
6.	15-07272	मैसर्स गुड मार्निंग इंडिया मल्टीलेवल मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड

बि. महान्ती
कम्पनी रजिस्ट्रार
उड़ीसा

कम्पनी अधिनियम 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में

कटक-753 001, दिनांक 14 नवम्बर 2006

सं. आरओसी/एसईएस/560(5)/5162--कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों का नाम आज रजिस्ट्रार से काट दिया गया है और निम्नलिखित कम्पनियां विघटित हो गई हैं। उपरोक्त सूचना के साथ ही निम्नलिखित कम्पनियों का नाम काट दिया गया है :--

क्रम सं.	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
1.	15-01258	मैसर्स जी ए सी (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
2.	15-01368	मैसर्स एस कुमार केपस प्राईवेट लिमिटेड
3.	15-01472	मैसर्स बे डाइवर्स प्राईवेट लिमिटेड
4.	15-03107	मैसर्स मारुती रिफाइनरी प्राईवेट लिमिटेड
5.	15-03276	मैसर्स जिओमिन पासुसैब प्राईवेट लिमिटेड
6.	15-01614	मैसर्स बिजया केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
7.	15-03320	मैसर्स चेम्फी प्राईवेट लिमिटेड

बि. महान्ती
कम्पनी रजिस्ट्रार
उड़ीसा

कम्पनी अधिनियम 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में

कटक-753 001, दिनांक 14 नवम्बर 2006

सं. आर.ओ.सी./560(3)/5160--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के अवसान पर निम्नलिखित

कम्पनियों का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्ट्रार से काट दिया जाएगा और यह सभी कम्पनियां विघटित कर दी जाएंगी :--

क्रम सं.	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
1.	15-01058	मैसर्स अजन्ता इन्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड
2.	15-01598	मैसर्स पूर्वासा एक्टूडर्स प्राईवेट लिमिटेड
3.	15-01858	मैसर्स जे. के. कंस्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड
4.	15-01882	मैसर्स एनीमल बायोलोजिकल प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
5.	15-03073	मैसर्स पतितपावन कंज्यूमर्स प्राईवेट लिमिटेड
6.	15-06118	मैसर्स डी.एस.एम. बिल्डर्स एण्ड डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड

बि. महान्ती
कम्पनी रजिस्ट्रार
उड़ीसा

कंपनी अधिनियम 1956 और
मैसर्स सिलवर स्टेक्स कमसीयल प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

बेंगलूर, दिनांक 2006

सं. कं.सं./560/3/23908/एस.सं./560(3)/06--कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि अगर तीन महीने के अंदर उचित कारण न बताया गया तो कंपनी का नाम रजिस्ट्रार से काट दिया जाएगा और उस दिन से कंपनी विघटित समझी जाएगी।

संजय कुमार गुप्ता
कंपनियों के सहायक रजिस्ट्रार
कर्नाटक

कंपनी अधिनियम 1956 और
मैसर्स किलोस्कर ऑटो कंपोनेंट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

बेंगलूर, दिनांक 3 नवम्बर 2006

सं. कं.सं./560(5)/24922/एस.सं./ /2005-06--कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स किलोस्कर ऑटो कंपोनेंट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्ट्रार से काट दिया गया है और उक्त कंपनी विघटित हो गई है।

संजय कुमार गुप्ता
कंपनियों के सहायक रजिस्ट्रार
कर्नाटक

कंपनी अधिनियम 1956 और

- (1) मैसर्स कान्डोर इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड
(2) मैसर्स क्रायेगार्ड लैवोरिट्रीज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

बेंगलूर, दिनांक 2006

सं. कं.सं./560(5)/24188/26183/एस.सं./एसईएस-2003/2006-07--कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि (1) मैसर्स कान्डोर इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड (2) मैसर्स क्रायेगार्ड लैवोरिट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कंपनी विघटित हो गई है।

संजय कुमार गुप्ता
कंपनियों के सहायक रजिस्ट्रार
कर्नाटक

कंपनी अधिनियम 1956 और

- (1) मैसर्स वायसरिच कम्युनिकेशन सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
(2) मैसर्स इट्रिक्स साफ्टवेयर प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

बेंगलूर, दिनांक 7 नवम्बर 2006

सं. कं.सं./560(5)/टीए/एच/एस.सं./26525/30740/2006-07--कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि (1) मैसर्स वायसरिच कम्युनिकेशन सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड (2) मैसर्स इट्रिक्स साफ्टवेयर प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कंपनी विघटित हो गई है।

वी. सी. दवे
कंपनियों के रजिस्ट्रार
कर्नाटक

UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION

New Delhi, the 2nd November 2006

No. A-60011/8/2005-RTI Cell (Admn.).—Consequent upon the transfer/posting and reallocation of the work at the level of Joint Secretaries in the Commission's Offices and in terms of Section 5(2) of the Right to Information Act, 2005, the following officers of the Union Public Service Commission are hereby designated as Central Public Information Officers in respect of the subject matters mentioned against their names :—

Sl. No.	Name of the Officer	Designation	Telephone No.	Subject matter
1.	S/Shri Vasumitra	Joint Secretary (Exam.)	23381164	All matters pertaining to various Examinations conducted by the Commission and all matters pertaining to Confidential Branch of the Commission.
2.	A. K. Vishandass	Joint Secretary (Recruitment-I)	23385090	All matters pertaining to R (C & P), IFC, Scrutiny Section (R-II, R-III, R-IV, R-V) and part of ER Branch.
3	V. P. Singh	Joint Secretary (Recruitment-II)	23381439	All matters pertaining to Scrutiny Section (R-I, R-VI), SPC-I, SPC-II.
4.	Ms. Kalpana Rajsinghot	Joint Secretary (R-III)	23382865	Advisers' Cell, Panel & Data Bank, Programme Unit.
5.	Ms. Necta Prasad	JS (AIS)	23381552	All matters pertaining to induction of State Services Officer to All India Services.

A. K. DASH
Joint Secy. (Appt. & RTI)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 2nd November 2006

No. E-16013/1/ADG/2004/Pers.-II/2968.—The President is pleased to appoint Shri Vikram Singh, IPS (UP : 74) as Additional Director General in Central Industrial Security Force in the pay scale of Rs. 22,400-525-24,500/- with effect from the forenoon of 30th October, 2006 and for a period of four years or until further orders, whichever is earlier.

INDERJEET KAUR
Director (Police)

DIRECTOR GENERAL
CENTRAL RESERVE POLICE FORCE

New Delhi-110003, the 31st October 2006

No. O-IL3702/06-CRC(MOs).—The President is pleased to appoint Dr. Sumit Saigal (IRLA-6967) as Medical Officer in Central Reserve Police Force in temporary capacity from

the forenoon of 12.09.2006 till further order. He is posted to 75 Bn., CRPF.

RANJIT SINGH
Addl. DIG (Pers.-I)

The 6th November 2006

No. O-II-6487/2006-Pers.-I.—Consequent on acceptance of notice for resignation from service, Smt. Kuni Acharya, Asstt. Comdt. (IRLA : 6487) of 122 Bn CRPF relinquished the charge of her post on the afternoon of 10 October 2006. Accordingly, she has been struck off from the strength of this department with effect from the same date i.e. 10.10.2006 (A.N.).

RANJIT SINGH
Addl. DIGP (Pers.-I)

The 7th November 2006

No. O-II-6479/2006-Pers.-I.—Consequent on acceptance of notice for Voluntary Retirement from service, Shri C. S. Sabu, Asstt. Comdt. (IRLA : 6479) of 139 Bn CRPF

relinquished the charge of his post on the afternoon of 01 November 2006. Accordingly, he was struck off from the strength of this department with effect from the same date i.e. 01.11.2006 (A.N.).

RANJIT SINGH
Addl. DIGP (Pers.-I)

No. O.II.3703/06-CRC(MOs).—The President is pleased to appoint Dr. Mukesh Kumar as Medical Officer in Central Reserve Police Force in a temporary capacity from the forenoon of 19.09.2006 till further orders. He is posted to 50 Bn., CRPF.

RANJIT SINGH
Addl. DIGP (Pers.-I)

DIRECTORATE GENERAL
CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE

New Delhi-110003, the 7th November 2006

No. E-16015/(2)/2/2003/Pers.-I/69.—The President is pleased to appoint Shri A. Banu Kumar, Insp./Exe. to the rank of Asstt. Commandant/Exe. in CISF on promotion on regular basis in the pay scale of Rs. 8,000-275-13,500/-. He is posted at CISF Unit THDC Tehri, where he assumed the charge of Asstt. Commandant/Exe. in the forenoon of 27th October 2006.

Sd./- ILLEGIBLE
Director General/CISF

No. E-16015/(2)/2/2003/Pers.-I/70.—The President is pleased to appoint the following Commandants on regular promotion to the rank of Senior Commandant in the pay scale of Rs. 14,300-400-18,300/- in CISF with effect from the date noted against each :—

Sl. No.	Name of Officer	Office/Unit where assumed the charge	Date of assumption of charge as Senior Commandant on regular basis
	S/Shri		
1.	R. P. Mishra	OIL Duliajan	14.10.2006
2.	S. N. Singh	KSTPP Korba	14.10.2006

Sd./- ILLEGIBLE
Director General/CISF

No. E-16015/(2)/2/2003/Pers.-I/71.—The President is pleased to appoint the following Assistant Commandants on regular promotion to the rank of Deputy Commandant

in the pay scale of Rs. 10,000-325-15,200/- in CISF with effect from the date noted against each :—

Sl. No.	Name of Officer	Office/Unit where assumed the charge	Date of assumption of charge as Deputy Commandant on regular basis
	S/Shri		
1.	T. S. Chadha	ONGC Nazira	11.09.2006
2.	Bipin Chandra	NNP Mysore	29.09.2006
3.	J. C. Dahiya	RHPP Pipri	06.10.2006

Sd./- ILLEGIBLE
Director General/CISF

INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT
OFFICE OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR
GENERAL OF INDIA

New Delhi-110002, the 8th November 2006

No. 6472-GE-I/13-2006.—The following IA & AS officers have retired from Government service with effect from the date shown against their name :—

1. Shri M. Bhengra Retired on superannuation w.e.f. 31.10.2006 (A.N.)
2. Shri V. C. Pillai Retired on superannuation w.e.f. 31.10.2006 (A.N.)

DEEPAK NARAIN
Asstt. Compt. and Auditor General (P)

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A & E),
JAMMU & KASHMIR

Srinagar, the 5th October 2006

No. Admn.-I/A&E/S-1/2006-07/1371.—Accountant General has been pleased to promote the following Assistant Accounts Officers to the cadre of Accounts Officer in the pay scale of Rs. 7,500-250-12,000/- (Group-B Gazetted) in an officiating capacity w.e.f. 05.10.2006 or the date on which they take over charge of higher post whichever is later :—

Sl. No.	Name	Date of Birth	Present Place of Posting	Remarks
1.	Sh. Mohd. Farooq	14.02.1957	Head Office, Srinagar	—
2.	Smt. Raman Jalali	10.08.1954	Branch Office, Jammu	—

The Officers so promoted shall have to exercise an option for fixation of their pay within a period of one month from

the date of their taking over in the higher cadre as required under rules.

The above mentioned Officers will assume the charge of higher post in Head Office, Srinagar and Branch Office, Jammu respectively.

Sd./- ILLEGIBLE
Dy. Accountant General (A & E)

No. Admn.-I/A&E/S-1/06-07/1381.—Accountant General has been pleased to promote Shri Chaman Lal Koul, Asstt. Accounts officer (Date of Birth = 25.01.1955) to the cadre of Accounts Officer in the scale of Rs. 7,500-250-12,000/- in an officiating capacity with effect from 05.10.2006 under Next Below Rule.

The Officer so promoted shall have to exercise an option for fixation of his pay within a period of one month from the date of his taking over in the higher cadre as required under rules.

Sd./- ILLEGIBLE
Dy. Accountant General (A & E)

No. Admn.-I/A&E/S-1/06-07/1390.—Accountant General has been pleased to promote Shri Autar Krishen Pandita, Asstt. Accounts officer (Date of Birth = 19.01.1955) to the cadre of Accounts Officer in the scale of Rs. 7,500-250-12,000/- in an officiating capacity with effect from 05.10.2006 under Next Below Rule.

The Officer so promoted shall have to exercise an option for fixation of his pay within a period of one month from the date of his taking over in the higher cadre as required under rules.

Sd./- ILLEGIBLE
Dy. Accountant General (A & E)

No. Admn.-I/A&E/S-1/2006-07/1399.—Accountant General has been pleased to promote the following Section Officers to the cadre of Assistant Accounts Officer in the pay scale of Rs. 7,450-225-11,500/- (Group-B Gazetted) in an officiating capacity w.e.f. 05.10.2006 or the date on which they take over charge of higher post whichever is later :—

Sl. No.	Name	Date of Birth	Present Place of Posting	Remarks
1.	Sh. Ravinder Kumar Raina	29.05.1961	Head Office, Srinagar	—
2.	Sh. Raj Nath Koul	10.04.1964	Branch Office, Jammu	—

The Officers so promoted shall have to exercise an option for fixation of their pay within a period of one month from

the date of their taking over in the higher cadre as required under rules.

Sd./- ILLEGIBLE
Dy. Accountant General (A & E)

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A & E),
WEST BENGAL

Kolkata-700001, the 1st November 2006

No. WM-I/Estt./195.—Under the orders of the A. G. (A. & E.), W. B. the following Divisional Accounts Officer Grade-I is hereby promoted as Senior Divisional Accounts Officer in the pay scale of Rs. 7,500-250-12,000/- in a temporary and officiating capacity w.e.f. the date of assumption of charges as Senior Divisional Accounts Officer in the present divisions/division noted against him till further order(s). He will be on probation for a period of 02 (two) years from the date of promotion.

Such promotion is in the interest of the public service.

Name

Shri Radhesyam Karmakar

The above named officer may submit his options under FR 22(I)(a)(i) within one month from the date of taking over charge as Sr. D. A. O. for fixation of pay on promotion.

Sd./- ILLEGIBLE
Dy. Accountant General (A/cs)

The 2nd November 2006

No. WM-I/Estt./196.—Under the orders of the A. G. (A. & E.), W. B. the following Divisional Accounts Officer Grade-II is hereby promoted as Divisional Accounts Officer Grade-I in the pay scale of Rs. 7,450-225-11,500/- in a temporary and officiating capacity w.e.f. the date of assumption of charges as Divisional Accounts Officer Grade-I in the present divisions/division noted against him till further order(s). He will be on probation for a period of 02 (two) years from the date of promotion.

Such promotion is in the interest of the public service.

Name

Shri Sekhar Kumar Maitra

The above named officer may submit his options under FR 22(I)(a)(i) within one month from the date of taking over charge as D. A. O. Grade-I for fixation of pay on promotion.

Sd./- ILLEGIBLE
Dy. Accountant General (A/cs)

MINISTRY OF SMALL SCALE INDUSTRIES
OFFICE OF THE DEVELOPMENT COMMISSIONER
(SMALL SCALE INDUSTRIES)

New Delhi, the 10th November 2006

No. A-19018/728/84-Admn.(G).—On attaining the age of superannuation, Shri S. K. Gupta, Deputy Director (Chemical), Branch Small Industries Service Institute, Gwalior under Small Industry Development Organisation retired from Government Service on the afternoon of 30th September, 2006.

D. K. GAUTAM
Deputy Director (Admn.)

MINISTRY OF MINES
GEOLOGICAL SURVEY OF INDIA

Kolkata-700016, the 8th November 2006

No. 1864A/A-19012/(3-GSR)/83/19B.—Dr. G. S. Reddy, Asstt. Chemist, Gr.-I, Geological Survey of India, Marine Wing, EC-II, Visakhapatnam relinquished the charge of the post of Asstt. Chemist Gr.-I w.e.f. 01.02.2005 (F.N.) on voluntary retirement from government service under Rule 48A of CCS (Pension) Rules, 1972.

S. K. SINHA
Regional Administrative Officer
for Dy. Director General (P) & H.O.D.

MINISTRY OF COMMUNICATIONS &
INFORMATION TECHNOLOGY
(DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS)
WIRELESS MONITORING ORGANISATION

New Delhi-110062, the 3rd November 2006

No. A-32012/2/03-Admn.(Pt.)/1029.—The Wireless Adviser to the Government of India, Ministry of Communications & I.T., Department of Telecommunications, hereby permits Shri Ram Ayodhya Prasad, Accountant of this Organisation to continue to officiate as Administrative Officer (Group B Gazetted) on ad-hoc basis in the Wireless Monitoring Organisation, Ministry of Communications & I.T., Department of Telecommunications, in the pay scale of Rs. 6,500-200-10,500/- for a period of 3 months with effect from 17.10.2006 to 17.01.2007 or till a regular candidate is appointed on deputation basis through UPSC, against the said post, whichever is earlier.

ANIL KUMAR
Deputy Director
for Wireless Adviser

No. A-32012/2/03-Admn.(Pt.)/1030.—The Wireless Adviser to the Government of India, Ministry of Communications & I.T., Department of Telecommunications,

4—346 GI/2006

hereby permits Shri Ram Ayodhya Prasad, Accountant of this Organisation to continue to officiate as Administrative Officer (Group B Gazetted) on ad-hoc basis in the Wireless Monitoring Organisation, Ministry of Communications & I.T., Department of Telecommunications, in the pay scale of Rs. 6,500-200-10,500/- for a period of 3 months with effect from 17.10.2006 to 17.01.2007 or till a regular candidate is appointed on deputation basis through UPSC, against the said post, whichever is earlier.

ANIL KUMAR
Deputy Director
for Wireless Adviser

No. A-32012/2/03-Admn.(Pt.)/1031.—The Wireless Adviser to the Government of India, Ministry of Communications & I.T., Department of Telecommunications, hereby permits Shri Ram Ayodhya Prasad, Accountant of this Organisation to continue to officiate as Administrative Officer (Group B Gazetted) on ad-hoc basis in the Wireless Monitoring Organisation, Ministry of Communications & I.T., Department of Telecommunications, in the pay scale of Rs. 6,500-200-10,500/- for a period of 3 months with effect from 17.10.2006 to 17.01.2007 or till a regular candidate is appointed on deputation basis through UPSC, against the said post, whichever is earlier.

ANIL KUMAR
Deputy Director
for Wireless Adviser

MINISTRY OF AGRICULTURE
(DEPARTMENT OF AGRICULTURE &
COOPERATION)
DIRECTORATE OF MARKETING & INSPECTION

N.H.-IV, Faridabad, the 9th November 2006

No. A-19024/3/2006-A.I.—Consequent upon his promotion to the post of Senior Chemist (Group B, Gazetted) in the pay-scale of Rs. 5,500-175-9,000/-, Shri S. N. Mishra has been appointed to the said post on temporary basis in the Directorate of Marketing and Inspection with effect from 16th October, 2006 (Forenoon).

A. K. CHOPRA
Under Secy.

BHABHA ATOMIC RESEARCH CENTRE

Mumbai-85, the 7th November 2006

No. PD/7(5)/2006-R-IV/(SO/E)/10475.—The President is pleased to appoint the undermentioned Officers of the Bhabha Atomic Research Centre as Scientific Officers/Engineers Grade 'E' (scale of pay of Rs. 12,000-375-16,500/-) in the same Research Centre with effect from the forenoon of February 1, 2006 except Shri K. D. Singh (Sr. No. 17) and

Shri H. A. Gangardiwala (Sr. No. 42) whose dates of appointment are with effect from the forenoon of February 6, 2006 and February 10, 2006 respectively, in an officiating capacity until further orders :—

Sl. No.	Name of the Officer	Present Grade
1	2	3
1.	Shri A. K. Goyal	SO/D
2.	Shri V. K. Gautam	SO/D
3.	Shri H. C. Goyal	SO/D
4.	Shri Sunil R. Kaul	SO/D
5.	Dr. D. N. Yadav	SO/D
6.	Shri S. B. Shambharkar	SO/D
7.	Shri Rajendra Prasad	SO/D
8.	Shri P. Rajendran	SO/D
9.	Shri P. T. Hariharan	SO/D
10.	Dr. D. Vidyasagar	SO/D
11.	Smt. Sathi R. Nair	SO/D
12.	Shri P. Y. Bansode	SO/D
13.	Shri M. C. Goel	SO/D
14.	Dr. R. D. Bhanushali	SO/D
15.	Dr. (Smt.) S. A. Marathe	SO/D
16.	Dr. (Smt.) Usha Narayanan	SO/D
17.	Shri K. D. Singh	SO/D
18.	Shri S. N. Tiwari	SO/D
19.	Shri Perumal D. Pillai	SO/D
20.	Shri K. Govindan	SO/D
21.	Dr. (Kum.) V. P. Saple	SO/D
22.	Dr. (Smt.) Debjani Pal	SO/D
23.	Dr. (Smt.) N. H. Haldavnekar	SO/D
24.	Dr. (Smt.) S. Rajeswari	SO/D
25.	Dr. D. Jeyaprakash	SO/D
26.	Shri B. G. Kori	SO/D
27.	Shri Anand Badigannavar	SO/D
28.	Shri V. M. Pakhare	SO/D
29.	Shri S. P. Dhakras	SO/D
30.	Shri Omveer Singh	SO/D
31.	Shri B. P. Bathija	SO/D
32.	Smt. S. U. Awasare	SO/D
33.	Dr. N. R. Krishnamurthy	SO/D
34.	Shri R. Muralidhara	SO/D
35.	Dr. S. S. Sanaye	SO/D

1	2	3
36.	Shri Rakesh Ras Bihari	SO/D
37.	Shri V. S. Viswanatha Iyer	SA/F
38.	Smt. D. Sarla Bai Amma	SA/F
39.	Shri J. Udhayakumar	SO/D
40.	Shri A. P. Sathe	SO/D
41.	Shri A. K. De	SO/D
42.	Shri H. A. Gangardiwala	SO/D
43.	Shri N. Sasidharan	SA/F
44.	Shri Sanjay Kumar	SO/D
45.	Shri Ramesh Gupta	SO/D
46.	Shri Sant Sharan	SO/D

DR. G. D. PUNGLE
Controller

Mumbai-85, the November 2006

No. PD/7(6)/2006-R-IV/(SO/D)/10494.—The President is pleased to appoint the undermentioned Officers of the Bhabha Atomic Research Centre as Scientific Officers/Engineers Grade 'D' (scale of pay of Rs. 10,000-325-15,200/-) in the same Research Centre with effect from the forenoon of February 1, 2006, in an officiating capacity until further orders :—

Sl. No.	Name of the Officer	Present Grade
1	2	3
1.	Shri A. K. Chander	SO/C
2.	Shri L. S. Patel	SO/C
3.	Shri Y. G. Nehete	SO/C
4.	Shri J. R. Kale	SA/E
5.	Shri D. Joyson Deroose	SO/C
6.	Shri S. B. Mahindrakar	SO/C
7.	Shri B. P. Singh	SO/C
8.	Shri Y. R. Bamankar	SO/C
9.	Shri H. D. Khade	SO/C
10.	Smt. V. S. Dhokane	SO/C
11.	Shri P. B. Padhye	SO/C
12.	Shri P. J. Joshy	SO/C
13.	Shri Rajesh Sankhla	SO/C
14.	Shri Subhash Singh	SO/C
15.	Shri G. Ramasubramanian	SA/E

1	2	3
16.	Shri V. Ramakrishna	SO/C
17.	Shri George Thomas	SO/C
18.	Smt. U. Pattammal	SO/C
19.	Dr. C. K. Salunke	SO/C
20.	Shri P. K. Mohammad Koya	SO/C
21.	Dr. (Smt.) U. P. Peshoton	SO/C
22.	Dr. Harry Ralte	SO/C
23.	Dr. Vineet Kohli	SO/C
24.	Shri R. M. Chavan	SO/C
25.	Shri T. J. Chandran	SO/C
26.	Shri N. B. Kashid	SO/C
27.	Shri B. K. Pandey	SO/C
28.	Shri Ram Vir Singh	SO/C
29.	Shri P. Ananthan	SO/C
30.	Shri Prashant Dubey	SO/C
31.	Shri C. N. S. Renuka Prasad	SO/C
32.	Shri K. Muralimohan	SO/C
33.	Dr. (Smt.) K. Biju	SO/C
34.	Smt. Mahua Basu Banerjee	SO/C
35.	Shri K. C. Jagadeesan	SO/C
36.	Shri R. K. B. Yadav	SO/C
37.	Smt. S. P. Vinatha	SO/C
38.	Shri A. K. Mishra	SO/C
39.	Smt. P. B. Patil	SO/C
40.	Shri S. J. Balani	SO/C
41.	Shri Vinod Prasad	SO/C
42.	Shri S. P. Sharma	SO/C

P. VENUGOPALAN
Controller

Mumbai-400085, the 7th November 2006

No. PD/4(4)/2001-R-III/2006/10504.—Controller, BARC appoints Shri Thankaswamy Nagendran, Accounts Officer, RMP, Mysore to officiate as Senior Accounts Officer in the scale of pay of Rs. 8,000-275-13,500/- in RMP, Mysore itself with effect from the forenoon of 1st July, 2006 on regular basis until further orders.

D. DASARATHAN
Dy. Establishment Officer

The 8th November 2006

No. PD/4(1)/2003-R-III/2006/10534.—Controller, Bhabha Atomic Research Centre appoints Smt. A. B. Nair, Stenographer Grade-I to the post of Private Secretary (Non-secretariat) on regular basis with effect from the forenoon of 23.08.2006, in the scale of pay of Rs. 6,500-200-10,500/-, in this Research Centre until further orders.

D. DASARATHAN
Dy. Establishment Officer

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY

Mumbai-400001, the 6th November 2006

No. 16/2(1)/2004-SUS/8546.—The President is pleased to appoint Dr. K. Praveen Babu as Scientific Officer/C (Medical) on initial pay of Rs. 8,000/- plus 25% NPA of basic pay in the General Services Organisation, Kalpakkam of this Department in the scale of pay of Rs. 8,000-275-13,500/- w.e.f. the forenoon of 25.09.2006 (F.N.) in a temporary capacity until further orders.

D. SURENDRAN
Under Secy.

Mumbai-400001, the 8th November 2006

No. 26/2(3)/2006-CCS/34.—On attaining the age of superannuation, Shri Chandrashekar Gajanan Mirlekar, Chief Security Officer (Scale of pay Rs. 12,000—16,500/-), Bhabha Atomic Research Centre, Mumbai of this Department, retired from Government service on 31.08.2006 (A.N.).

SHOBHA DEVI N.
Under Secy.

No. 20/3(4)/2005-CCS/35.—On attaining the age of superannuation, Shri Mathew Kochummen, Dy. Establishment Officer (Scale of pay Rs. 10,000—15,200/-), Bhabha Atomic Research Centre, Mumbai of this Department, retired from Government service on 30.09.2006 (A.N.).

SHOBHA DEVI N.
Under Secy.

Mumbai-400001, the 8th November 2006

No. 6(2432)/2006-Adm./8613.—The President is pleased to appoint Shri O. T. G. Nair, Administrative Officer-II (Scale of pay Rs. 7,500-250-12,000/-), Rare Materials Project,

Bhabha Atomic Research Centre, Mysore as Officer-on-Special Duty, in the scale of pay of Rs. 10,000-325-15,200/- in the Department of Atomic Energy Secretariat, Mumbai with effect from the forenoon of October 27, 2006.

P. P. MADHAVAN KUTTY
Under Secy.

ATOMIC ENERGY REGULATORY BOARD

Mumbai-400094, the 8th November 2006

No. AERB/10/Admn./1062.—Chairman, Atomic Energy Regulatory Board appoints Smt. Sumambika Panicker, Assistant to officiate as Assistant Personal Officer on ad-hoc basis in the scale of pay of Rs. 6,500-200-10,500/- from 18.09.2006 to 20.10.2006 in the same Board vice Shri V. P. Kuriakose, Administrative Officer-II granted leave.

N. S. NAIR
Administrative Officer-III

DIRECTORATE GENERAL OF WORKS O/O CHIEF ARCHITECT (NDR) CENTRAL PUBLIC WORKS DEPARTMENT

New Delhi, the 31st October, 2006

No. 27/153/1988-C.A.(NDR)/Estt./1902-11.—Consequent upon his attaining the age of superannuation Shri Surinder Kumar, Assistant Architect, Central Public Works Department, Nirman Bhawan, New Delhi retires from Government service with effect from the afternoon of 31.10.2006.

VIJAY P. RAO
Liaison Officer to Chief Architect
(New Delhi Region)

INCOME TAX APPELLATE TRIBUNAL

Mumbai-400020, the 1st November 2006

No. F. 48-Ad.(AT)/2006.—Shri Manish Kumar Bhoi, Hindi Translator, Income-tax Appellate Tribunal, Mumbai Benches, Mumbai is appointed to officiate as Hindi Officer, on ad-hoc basis in the Income-tax Appellate Tribunal, Mumbai Benches, Mumbai in a purely temporary capacity with effect from the forenoon of 17th October, 2006 for a period of six months in the pay scale of Rs. 6,500-200-10,500/- or till the post is filled up on regular basis, whichever is earlier.

The above appointment is ad-hoc and will not bestow upon him any claim for regular appointment in the grade and the services rendered by him on ad-hoc basis will not count for the purpose of seniority in that grade or for eligibility for promotion to the next higher grade.

VIMAL GANDHI
President

The 2nd November 2006

No. F.48-Ad.(AT)/2006.—The following officials of the Income-tax Appellate Tribunal are appointed to officiate as Assistant Registrar, Income-tax Appellate Tribunal, on ad-hoc basis in a purely temporary capacity for a period of three months with effect from the date and at the place mentioned against each in Column No. 3 and 4 respectively in the pay scale of Rs. 8,000-275-13,500/- or till the post is filled up on regular basis, whichever is earlier :—

Sl. No.	Name/Designation and Bench(es) where presently posted	Effective Date	Bench(es) where posted
1	2	3.	4
1.	J. R. Sawant, Office Superintendent, I.T.A.T., Mumbai	13.11.2006 (F.N.)	Mumbai
2.	E. D. Tirodkar, Office Superintendent, I.T.A.T., Mumbai	13.11.2006 (F.N.)	Mumbai
3.	S. Lakra, Office Superintendent, I.T.A.T., Delhi	17.11.2006 (F.N.)	Patna

The above appointments of the aforementioned officials are on ad-hoc basis and as such it will not bestow upon them any claim for regular appointment in that grade and the services rendered by them on ad-hoc basis would not count for the purpose of seniority in that grade or for eligibility for promotion to the next higher grade.

VIMAL GANDHI
President

MINISTRY OF COMPANY AFFAIRS (DEPARTMENT OF COMPANY AFFAIRS) OFFICE OF REGISTRAR OF COMPANIES

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Zyen Office Automation Private Limited

Kanpur-208001, the 7th November 2006

No. LC/560(3)/20-21163/2271.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Zyen Office Automation Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

K. L. KAMBOJ
Registrar of Companies
U.P. & Uttaranchal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
the following Companies

Kanpur-208001, the 9th November 2006

No. 560(5)/2367.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the names of the following companies has this day been struck off from the Register of Registrar of Companies and are dissolved :—

Sl. No.	Co. No.	Name of the Company
1	2	3
1.	13890	M/s. Es En Pack Private Limited
2.	21880	M/s. Chahat Credit & Commerce Private Limited
3.	11214	M/s. Yvelines Sales Private Limited
4.	17447	M/s. Maksons Fibers and Bristles Private Limited
5.	23182	M/s. Ganpati Jewellery Exim Private Limited
6.	17182	M/s. Neete Advertising Private Limited
7.	9078	M/s. J. P. Drug House Private Limited
8.	6772	M/s. D. G. Trading Private Limited
9.	19812	M/s. Green Valley Agrotech Limited
10.	21833	M/s. Mahmudabad Cold Storage Private Limited
11.	11960	M/s. Anbeer Paper & Packing Private Limited
12.	20249	M/s. Shree Surendra Home Fin & Leasing Private Limited
13.	24637	M/s. Maharaja Kunwar Fashions Private Limited
14.	23263	M/s. Kuku Brass Exclusives Private Limited
15.	26991	M/s. Oracle Financial Consulting Private Limited
16.	8121	M/s. A. K. Aromatics Private Limited
17.	8015	M/s. Moradabad Vikas Colonizers Limited
18.	9196	M/s. S. A. Foods Private Limited
19.	11090	M/s. Ganapati Sale Company Private Limited
20.	27427	M/s. Herculan Utilities Private Limited
21.	10596	M/s. D. C. Drugs & Chemicals Limited
22.	3981	M/s. Jhavar Industries Private Limited

1	2	3
23.	4336	M/s. Shyam Sunder Sanjay Kumar Sugar Mills Private Limited
24.	21277	M/s. Vashundhra Capfin Limited
25.	25257	M/s. Nice Infosystems Limited
26.	25436	M/s. Ultra Sound & Cardio-Scan Research Institute Private Limited
27.	3652	M/s. Shyam Mohan Bros Private Limited
28.	2890	M/s. Shiwalik Weavers Association Limited
29.	26852	M/s. Baron Constructions Private Limited
30.	13032	M/s. Kasturi Construction Private Limited

K. L. KAMBOJ
Registrar of Companies
U.P. & Uttaranchal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
the following Companies

Kanpur-208001, the 10th November 2006

No. 560(3)/2370.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the names of the following companies has this day been struck off from the Register of Registrar of Companies and are dissolved :—

Sl. No.	Co. No.	Name of the Company
1	2	3
1.	16901	M/s. Coral Paints Private Limited
2.	17030	M/s. Mixsel Biotechnologies Limited
3.	23910	M/s. Kankane Food Products Private Limited
4.	21105	M/s. Big Birds India Finance Limited
5.	24101	M/s. Osho Remedies Private Limited
6.	237111	M/s. Pateshwari Constructions Private Limited
7.	19416	M/s. Kunwar Hospital and Heart Centre Private Limited
8.	23710	M/s. Kunwar Management Consultants Private Limited
9.	22299	M/s. Crescents Overseas Private Limited
10.	16912	M/s. K. M. Offset Private Limited

1	2	3
11.	17352	M/s. Heptacare Investments Private Limited
12.	24018	M/s. Vaibhav Builders Limited
13.	27718	M/s. Makesure Securities Private Limited
14.	5659	M/s. Neptune Chemicals (India) Private Limited
15.	15842	M/s. Ahmed Builders Private Limited
16.	14647	M/s. Haj Minaatullah Trade Company Private Limited
17.	5683	M/s. Economy Form Private Limited
18.	13233	M/s. K. P. S. Motors Finance Private Limited
19.	21958	M/s. Gandhi Soft Drinks & Bottlers Private Limited
20.	2620	M/s. Kudrat Constructions & Builders Private Limited
21.	10868	M/s. S. N. Agarwal Cement Private Limited
22.	6441	M/s. S. N. Agarwal Private Limited
23.	11147	M/s. Tayal Transpur Private Limited
24.	10327	M/s. Krishna Prested Pipe Company Limited

K. L. KAMBOJ
Registrar of Companies
U.P. & Uttaranchal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
the following companies

Jammu-180012, the 31st October 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/1094.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of the following companies unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Companies will be dissolved :—

Sl. No.	Company No.	Name of the Company
1.	1648	M/s. J. and K. Plantation Limited
2.	1754	M/s. Shiva Agro Forests Private Limited
3.	493	M/s. Char Chinara Investments and Trading Private Limited

O. P. SHARMA
Registrar of Companies
Jammu & Kashmir

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
the following Companies

Chennai, the 5th October 2006

No. 19801 to 48252/560(5)/2006.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the names of the following companies have this day been struck off from the Register and the said companies are dissolved :—

Sl. No.	Co. No.	Name of the Company
1.	19801	M/s. The Presidency Talkies Private Limited
2.	19831	M/s. Xycom Sanmar Limited
3.	22883	M/s. Vari Benefit Fund Limited
4.	39953	M/s. Vijayeebhava Investments Private Limited
5.	40079	M/s. Vimalayan Securities Private Limited
6.	48252	M/s. H L and Engineering & Construction Private Limited

S. MEENAKSHI
Asstt. Registrar of Companies
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
the following companies

Cuttack-753001, the 7th November 2006

No. ROC/Sec. 560(3)/3020.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of the following companies unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Companies will be dissolved :—

Sl. No.	Company No.	Name of the Company
1.	15-002036	M/s. Chandrama Builders Developers Limited
2.	15-004347	M/s. Gamma Estates Private Limited
3.	15-005641	M/s. Twin City Engineers Private Limited
4.	15-005735	M/s. Sri Durga Cloth Stores Private Limited
5.	15-006020	M/s. Neo Agro Industries (India) Limited
6.	15-007272	M/s. Good Morning India Multilevel Marketing Private Limited

B. MOHANTY
Registrar of Companies
Orissa

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
the following companies

Cuttack-753001, the 14th November 2006

No. ROC/Sec. 560(5)/5162.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of the following companies have this day been struck off from the register of the Registrar of Companies, Orissa and the said Companies are dissolved :—

Sl. No.	Company No.	Name of the Company
1.	15-001258	M/s. GAC (India) Private Limited
2.	15-001368	M/s. S. Kumar Caps Private Limited
3.	15-001472	M/s. Bay Divers Private Limited
4.	15-003107	M/s. Maruti Refinery Private Limited
5.	15-003276	M/s. Geomin Polulab Limited
6.	15-003320	M/s. Chemphi Private Limited
7.	15-001614	M/s. Bijaya Chemicals Private Limited.

B. MOHANTY
Registrar of Companies
Orissa

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
the following companies

Cuttack-753001, the 14th November 2006

No. ROC/Sec. 560(3)/5160.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of the following companies unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Companies will be dissolved :—

Sl. No.	Company No.	Name of the Company
1.	15-001058	M/s. Ajanta Industries Private Limited
2.	15-001598	M/s. Purbasha Extruders Private Limited
3.	15-001858	M/s. J. K. Construction Private Limited
4.	15-001882	M/s. Animal Biological Products Private Limited
5.	15-003073	M/s. Patitapaban Consumers Private Limited
6.	15-006118	M/s. D. S. N. Builders & Developers Private Limited

B. MOHANTY
Registrar of Companies
Orissa

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Silver Stakes Commercial Limited

Bangalore, the 2006

No. TA/H/S. 560(3)/23908/06.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Silver Stakes Commercial Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

SANJAYKUMAR GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Karnataka

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Kirloskar Auto Components Private Limited

Bangalore, the 3rd November 2006

No. TA/H/S. 560(3)/24922/06.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Kirloskar Auto Components Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

SANJAYKUMAR GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Karnataka

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
(1) M/s. Condor Infotech Private Limited
(2) M/s. Cryogard Laboratories Private Limited

Bangalore-56003, the 2006

No. TA/24188/26183/S. 560(5)/SES-2003/2006-07.—Notice is hereby given that the following Companies have applied to this office for striking off their names under the "Simplified Exit Scheme-2003" dated 25.03.2003 of Government of India, Department of Company Affairs which have been approved during August, 2006 :—

Sl. No.	Name of the companies	Company number	Date of application	Names of persons/directors who have made application on behalf of the Company
1	2	3	4	5
1.	M/s. Condor Infotech Private	U00892KA1998 PTC024188	09.09.1998	1. C. V. Srinivasa 2. Gayathri M. S.

1	2	3	4	5
1.	M/s. Cryogard Laboratories Private Limited	U85199KA2000 PTC024188	04.01.2000	1. Venkat- raman Krishnan 2. P. V. V. Krishnan

V. C. DAVEY
Registrar of Companies
Karnataka

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
(1) M/s. Voicereach Communication Services Private
Limited (2) M/s. Itrix Software Private Limited

Bangalore-56003, the 7th November 2006

No. TA/H/26525/30740/S. 560(5)/SES-2003/2006.—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section
560 of the Companies Act, 1956 that the names of the
following Companies have this day been struck off from
the Register of Registrar of Companies and the said

Companies shall stand dissolved on the publication of this
notice in the Official Gazette :—

Sl. No.	Name of the companies	Company number Corporate Identity Number/date of Registration	Date of application	Names of persons/ directors who have made application on behalf of the Company
1	2	3	4	5
1.	M/s. Voicereach Communication Services Private Limited	U64202KA2000 PTC026525	03.03.2000	1. Jayaram 2. Than- gamma Srinivasan
1.	M/s. Itrix Software Limited	U72200KA2002 PTC030740	09.07.2002	1. S. Baskar Krishnan 2. V. Thiru- mangal

V. C. DAVEY
Registrar of Companies
Karnataka